



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2578]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 11, 2013/कार्तिक 20, 1935

No. 2578]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 11, 2013/KARTIKA 20, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवंबर, 2013

सं० 50 (आर.ई-2013)/2009-2014

**विषय:-** इंडियन आयल कार्पोरेशन लि० द्वारा नेपाल और भूटान को किरोसीन और द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के निर्यात हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्त से छूट।

**का.आ. 3418(अ).**—विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैरा 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निर्यात एवं आयात मर्चों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 27 को पुनः अधिसूचित करती है।

2. निर्यात एवं आयात मर्चों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 27 में क्रम सं. 114 और क्रम सं. 115 के सामने प्रतिबंध का स्वरूप में मौजूदा प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। तदनुसार, अध्याय 27 की संशोधित प्रविष्टियाँ निम्न प्रकार होंगी:

अध्याय 27

खनिज ईंधन; खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद; बिट्यूमिनस पदार्थ; खनिज वैक्स

क्रम सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद का विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
113	27090000	किग्रा.	कच्चा तेल	राज्य व्यापार उद्यम	इंडियन आयल कार्पोरेशन लि० के जरिए निर्यात
114	27101910	किग्रा.	किरोसीन	मुक्त	निर्यात अनुमत बशर्ते कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया हो। उपर्युक्त शर्त इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. द्वारा नेपाल और भूटान को किरोसीन के निर्यात पर लागू नहीं होगी।
115	27111900	किग्रा.	द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)	मुक्त	निर्यात अनुमत बशर्ते कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया हो। उपर्युक्त शर्त इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. द्वारा नेपाल और भूटान को द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के निर्यात पर लागू नहीं होगी।

## 3. इस अधिसूचना का प्रभाव:

इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. द्वारा नेपाल और भूटान को किरोसीन और एलपीजी के निर्यात हेतु पेट्रोलीयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की शर्त से छूट दे दी गई है।

[फा.सं. 01/91/180/204/एम14/निर्यात सैल]

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce )**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th November, 2013

**No. 50 (RE – 2013)/2009-2014**

**Subject: Exemption from the requirement of NOC for export of Kerosene and Liquefied Petroleum Gas (LPG) by Indian Oil Corporation Ltd to Nepal and Bhutan.**

**S.O. 3418(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Para 1.3 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Central Government, with immediate effect, hereby re-notifies Chapter 27 of Schedule 2 of ITC(HS) Classification of Export and Import Items.

2. The existing entries in the Nature of Restriction against Sl. No. 114 and Sl. No. 115 in Chapter 27 of Schedule 2 of ITC(HS) Classification of Export and Import Items are being substituted. Accordingly, the amended entries in Chapter 27 would be as follows:

**Chapter 27**

**Mineral Fuels; Mineral Oils and Products of their Distillation; Bituminous Substances; Mineral Waxes**

S.No.	Tariff Item HS Code	Unit	Item Description	Export Policy	Nature of Restriction
113	27090000	Kg	Crude Oil	STE	Export through Indian Oil Corporation Limited
114	27101910	Kg	Kerosene	Free	Export allowed subject to obtaining NOC from Ministry of Petroleum and Natural Gas. The above condition would not be applicable for export of Kerosene to Nepal and Bhutan by the Indian Oil Corporation Ltd.
115	27111900	Kg	Liquefied Petroleum Gas (LPG)	Free	Export allowed subject to obtaining NOC from Ministry of Petroleum and Natural Gas. The above condition would not be applicable for export of Liquefied Petroleum Gas (LPG) to Nepal and Bhutan by the Indian Oil Corporation Ltd.

**3. Effect of this notification:**

Export of Kerosene and LPG to Nepal and Bhutan by Indian Oil Corporation has been exempted from the requirement of NOC from Ministry of Petroleum and Natural Gas.

[ F. No. 01/91/180/204/AM14/Export Cell]

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade